

## प्रेस विज्ञप्ति

मोहाली में ब्रह्माकुमारीज़ ने किया भव्य सड़क सुरक्षा मोटर बाईक रैली का सफल आयोजन ।

75 ब्रह्माकुमार, ब्रह्माकुमारी बाईकरज ने रैली में लिया भाग, सड़क नियमों के बारे किया जागरूक ।

श्री जगजीत सिंह जल्ला पुलिस कप्तान ख्यातायात, ने रैली को किया रवाना ।

मोटर बाईक रैली का नगर में भिन्न भिन्न संस्थाओं ने किया उमंग से किया जगह जगह स्वागत ।

**मोहाली, 15 नवंबर:** आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर प्राजैक्ट के अंतर्गत आज यहां एक भव्य सड़क सुरक्षा मोटर बाईक रैली का प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय की अंतरराष्ट्रीय संस्था के यातायात प्रभाग की ओर से आयोजन किया गया । इस रैली का मुख्य उद्देश्य था सड़क सुरक्षा से जीवन रक्षा अर्थात सड़क पर विभिन्न कारणों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जन जन को जागृत करना ।

इस मोटर बाईक रैली में 75 बाईकस पर ब्रह्माकुमार व ब्रह्माकुमारी बहनें सवार थी जो 2 पंक्तियों में बहुत शांति व परमात्म स्मृति में चल रही थी । सबसे आगे एक रथ पर दो देवी स्वरूपा ब्रह्माकुमारीयां सबको ईश्वरीय साकाश दे रही थी तथा उसके पश्चात बैंड मेडीटेशन गीतों की तान से सबको आकर्षित करते चल रहा था, उसके बाद तवेरा गाड़ी से सड़क सुरक्षा के प्रति सभी को जागरूक करने की अनाउंसमेंट व राजयोग से संयमित तनावमुक्त श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दी जा रही थी ।

मोटर बाईक रैली को पुलिस कप्तान यातायात श्री जगजीत सिंह जल्ला, श्री तरसेम लाल पी.सी.एस. सहायक कमिश्नर मोहाली, मोहाली-रोपड क्षेत्र के राजयोग केंद्रों की संचालिका ब्रह्माकुमारी प्रेमलता, मुम्बई से विशेष रूप से पधारी ब्रह्माकुमारी कविता दीदी जी, श्री महेंदर चौधरी उप पुलिस कप्तान क्राईम श्री गूरचरन सिंह पूर्व जिला एवं सत्र न्यानधीश आदि ने शिवध्वज दिखा कर रैली को ब्रह्माकुमारीज़ सुख शांति भवन फेज़ 7 से 3.00 बजे रवाना किया । रैली का नगर में कई स्थानों जैसे फेज़ 10 मार्किट, सनातन धर्म मंदिर फेज़ 11, फेज़ 7 मार्किट, फेज़ 3 बी-2 मार्किट, शिव मंदिर फेज़ 1 आदि धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं द्वारा फूलों, फलों व सरोपा भेंट करके सम्मानित किया गया । रैली ने लगभग 25 किलोमीटर का रास्ता तय करते लाखों लोगों को परमात्म संदेश व सड़क सुरक्षा नियमों को पालन करने की प्रेरणा प्रदान की जिनमें हैलमेट पहनने, मद्यपान व नशा करके गाड़ी न चलाने, लाल बत्ती पर रूकने, गाड़ी निर्धारित गति अनुसार ही चलाने व गाड़ी चलाते समय मोबाईल प्रयोग न करना आदि उल्लेखनीय थी । रैली सांय 7.00 बजे ब्रह्माकुमारीज़ सुख शांति भवन फेज़ 7 में सम्पन्न हुई तथा उसके पश्चात सभी रैली बाईकर्स को सर्टीफिकेट प्रदान किये गये ।

रैली को फ्लैग आफ करने से पूर्व एक संक्षिप्त कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ जिसमें मोहाली के पुलिस कप्तान यातायात श्री जगजीत सिंह जल्ला ने मुख्य अतिथि के रूप में जनसभा को संबोधित करते कहा कि ज्यादातर दुर्घटनाएं चालक की लापरवाही व नशा करके गाड़ी चलाने से होती हैं जिन्हे यातायात नियमों के पालन से रोका जा सकता है । उन्होने ब्रह्माकुमारीज़ के जन कल्याण हेतु ऐसी रैलीयां व अन्य समाज सेवा करने की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा अन्य स्थानों पर भी ऐसी मोटर बाईक रैलीयां करने का आवाहन किया ।

मुम्बई से विशेष रूप से रैली के लिए पधारी ब्रह्माकुमारी कविता दीदी जी ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने उद्बोधन में कहा कि मानव जीवन बहुत अमूल्य है इसे सड़क दुर्घटनाओं में गंवाने से बचें । उन्होंने आगे कहा कि वाहन की गति उतनी ही रखनी चाहिए जितनी नियंत्रित की जा सके । मन को तनावमुक्त रखने के लिए उन्होने राजयोग को बहुत कारगर बताया । इस तकनीक को सभी को अवश्य सीखना चाहिए । बच्चों को कार देने से पहले उन्हें अच्छे संस्कार दें ।

मोहाली-रोपड़ राजयोग केंद्रों की संचालिका ब्रह्माकुमारी प्रेमलता ने परमात्म स्मृति से अपनी यात्रा प्रारम्भ करने, राजयोग से अपने मन, कर्मेन्द्रियों को संयमित कर धीरज और सभ्यता के साथ जीवन जीने पर बल दिया । उन्होने कहा कि राजयोग मानव में आत्मबल भरता है तथा सकारात्मक बनाता है ।

श्री तरसेम लाल पी.सी.एस. सहायक कमिश्नर व श्री महिंदर चौधरी उप पुलिस कप्तान क्राईम ने भी इस अवसर पर अपनी मंगल कामनाएं दी तथा प्रशासन की ओर से ब्रह्माकुमारी बहनों का आभार व्यक्त किया कि ये बहने सरकार का कार्य अपने तन मन धन से कर रही हैं ।

ब्रह्माकुमारी अदिति बहन जी ने इस अवसर पर सारी सभा को सड़क नियमों पर चलने की शपथ दिलाई ।

ब्रह्माकुमारी प्रेमलता